

Commerce
fest



Marketing

Tagline

tribution & selling
etition

Index

1. Product chosen

2. Brand Name | Logo | Tagline

3. USP's

4. Latest collection

5. Prices

6. Permissions

7. Transportation

8. Packing

9. Warehousing

10. Distribution & Selling

11. Competition

12. Social Message


Ladies Bags....

The Product that I have
choosen is

जिस तरह हमें अपने अपने महिला के
पुना है यह उनके जीवन की responsibilities
को दर्शाता है।

Ladies Bag में जो Design करती है
उससे उनके वर्तमान जीवन में क्या क्या करना
Information प्राप्त करने आती है।
में Link में लोगों के लिए उनके अपने
निर्माई जाने वाली निर्माण क्षमताओं का
भी चित्रित करती है।

Product Choosen



Brand Name


Logo

Tagline

Anyone a
which
nest moth

Our Latest Collection...




products.
only on



The Unique Selling Proposition of
my Product are :-

1. Spacious
2. Affordable
3. Eco-friendly

Anyone and Everyone can buy it. we have products.
which suits everyone whether a young lady or
new mother




PRICE

Casual
Bags 500/-



Party
wear
1000/-




Luxury
Premium
1500/-

Permiss^{ns}

- Taken Patent of Brand Name.
- Trademark Registration of Logo.
- Basic Business Operating licence like - Gumnastha - taken
- Gist - Registration has been Done.
- Fire Department permit has been taken.
- PAN CARD - Applied and Received.

Overall all the formalities that are required to start a small Business has been done.

Transit




Packing...



Primary

Transit



Secondary



Primary




★ *
 Transport is done to
 the finished
 the
 Card
 the
 the

I have chosen
transport
services
for
my
business
because
of its
importance
and
profitability.



* We have longed for time of quietness

State Transport
State and Intra
for both Intra
very nominal -
★ They charge amount



Warehouse

Competition in
the Market

Limo
papas

ESBEDA

N